

Covid-19 टीकाकरण के बारे में जानकारी।

Covid-19 vaccination information

Covid-19 टीकाकरण के बारे में जानकारी।

आपको Covid-19 वैक्सीन के बारे में क्या-क्या जानने की आवश्यकता है।

- Covid-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। यह आपको कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बढ़िया सुरक्षा प्रदान करता है।
- वैक्सीनका मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा अच्छे से परीक्षण और अनुमोदन किया गया है।
- लाखों लोगों को Covid-19 वैक्सीन दी गई है और गंभीर दुष्प्रभाव, जैसे कि एलर्जी, बहुत ही दुर्लभ हैं।
- NHS उन लोगों को वैक्सीन देने में प्राथमिकता दे रहा है, जिन्हें Covid-19 से गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा है। जिस क्रम में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है वह चिकित्सा विशेषज्ञों की स्वतंत्र सलाह पर आधारित है।
- जब आपकी वैक्सीन लगाने की बारी आएगी तो आपको NHS द्वारा संपर्क किया जाएगा।
- वैक्सीन को 2 खुराक के रूप में लगाया जाता है। पहली खुराक के 3 से 12 सप्ताह बाद आपको इसकी दूसरी खुराक दी जाएगी।
- वैक्सीन की पहली खुराक से आपको कोरोनावायरस से अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूसरी खुराक की आवश्यकता होती है जो लंबे समय तक चलती है।
- वैक्सीन लगाने के बाद भी थोड़ी सी संभावना है कि आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है या आप संक्रमण फैला सकते हैं। जबतक सरकार द्वारा नहीं बताया जाए, तब तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिशानिर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।
- Covid-19 वैक्सीन किसी भी कोई पशु उत्पाद या अंडे से मिलकर नहीं बनी है।
- इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है।
- NHS आपसे कभी भी आपके बैंक या आपकी वित्तीय जानकारी के बारे में नहीं पूछता है या आपसे कभी भी एनएचएस मुक्त Covid-19 टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपनी पहचान साबित करने के लिए नहीं कहता है।
- यदि आपको अलग प्रारूप या भाषा में इस जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया 01454 868009 पर कॉल करें।
- यह देखने के लिए कि क्या आप अभी तक योग्य हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए, 119 पर कॉल करें या nhs.uk/covid-vaccination पर जाएं
- वैक्सीनकेबारेमेंअधिकजानकारी: www.southglos.gov.uk/vaccination
- यदि आप किसी अन्य भाषा या प्रारूप में Covid-19 टीकाकरण की जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें: 01454 868009



HINDI

